



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2
PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 3] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 22, 1982/माघ 2, 1903
No. 3] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 22, 1982/MAGHA 2, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 1982

सं. 10/2/82-स्टेटस.—श्री पी. वेंकट रेड्डी 16 जनवरी, 1982 से राष्ट्रपति
की मंत्रि परिषद् में उप-मंत्री नहीं रहे ।

अजीत सिंह मेहता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 1982

No. 10/2/82-States.—Shri P. Venkata Reddy has, with effect from the
16th January, 1982, ceased to be a Deputy Minister in the Council of Minis-
ters of the President.

A. S. MEHTA, Jt. Secy.

1236 GI/81

(5)

